

INDIA'S TRADE DEFICIT

Why in the News? India's trade deficit widened to a record \$31.02 billion in July 2022.

Key Points

About : Trade Deficit

- Simply put, a Trade deficit or negative **Balance of Trade (BOT)** is the gap between exports and imports.
- When money spent on imports exceeds that spent on exports in a country, trade deficit occurs.
- It can be calculated for different goods and services and also for international transactions.
 - The opposite of trade deficit is trade surplus.

What widened India's trade deficit?

- **Imports:** One of the key causes of trade deficit is some goods such as crude oil are not being produced domestically.
 - In that case, they have to be imported which imbalances the country's trade.
- A **weak currency** can also be a cause as it makes trade expensive.
- **Weakening global demand**, which slows down exports.
- **Coal imports** were another transaction that contributed to the import bill and the widening of the trade deficit this financial year.




Image Source: Moneycontrol

Impact

- If the trade deficit increases, a country's GDP decreases. A higher trade deficit can decrease the local currency's value.

Current depreciation of Indian currency is one such consequence of trade deficit.
- More imports than exports impact the jobs market and lead to an increase in unemployment.
 - **For Example,** If more mobiles are imported and less produced locally, then there will be fewer local jobs in that sector.

भारत का व्यापार घाटा

खबरों में क्यों? जुलाई 2022 में भारत का व्यापार घाटा 31.02 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

प्रमुख बिंदु

व्यापार घाटा के बारे में

- सीधे शब्दों में कहें तो व्यापार घाटा या नकारात्मक व्यापार संतुलन (बीओटी) निर्यात और आयात के बीच का अंतर है।
- जब आयात पर खर्च किया गया धन किसी देश में निर्यात पर खर्च किए गए धन से अधिक हो जाता है, तो व्यापार घाटा होता है।
- इसकी गणना विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए भी की जा सकती है।
 - व्यापार घाटे का विपरीत व्यापार अधिशेष है।

भारत का व्यापार घाटा क्यों बढ़ा?

- **आयात:** व्यापार घाटे के प्रमुख कारणों में से एक कुछ सामान है जैसे कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन नहीं किया जा रहा है।
 - उस स्थिति में, उन्हें आयात करना पड़ता है जो देश के व्यापार को असंतुलित करता है।
- एक **कमजोर मुद्रा** भी एक कारण हो सकती है क्योंकि यह व्यापार को महंगा बनाती है।
- **कमजोर वैश्विक मांग**, जो निर्यात को धीमा करती है।
- **कोयला आयात** एक और लेनदेन था जिसने इस वित्तीय वर्ष में आयात बिल और व्यापार घाटे को चौड़ा करने में योगदान दिया।




Image Source: Moneycontrol

प्रभाव

- यदि व्यापार घाटा बढ़ता है, तो देश की जीडीपी घटती है। एक उच्च व्यापार घाटा स्थानीय मुद्रा के मूल्य को कम कर सकता है। भारतीय मुद्रा का वर्तमान मूल्यहास व्यापार घाटे का ऐसा ही एक परिणाम है।
- निर्यात से अधिक आयात नौकरियों के बाजार को प्रभावित करते हैं और बेरोजगारी में वृद्धि का कारण बनते हैं।
 - **उदाहरण** के लिए, यदि अधिक मोबाइल आयात किए जाते हैं और स्थानीय स्तर पर कम उत्पादन किया जाता है, तो उस क्षेत्र में स्थानीय नौकरियां कम होंगी।